



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 554] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 16, 1981/अग्रहायण 25, 1903  
No. 554] NEW DELHI, WEDNESDAY, DEC. 16, 1981/AGRAHAYANA 25, 1903

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

---

वाणिज्य मंत्रालय

भारत

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1981

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का० भा० 900 (अ) सं० ई (सी) ओ, 1977/एएम (226).—आयात-निर्यात  
(नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग  
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में भागे संशोधन  
करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :-

1 इस आदेश का निर्यात (नियंत्रण) 37वा सशोधन आदेश को सजा दी जाए ।

2 निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में --

(1) खुले सामान्य लाइसेंस-3 में क्रम संख्या 55 के सामने के कालम 4 में आने वाली वर्तमान शर्त न० 3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा --  
 "कुटीर उद्योगों के हस्तकरखा वस्त्र, हस्त निर्मित कुटीर उद्योगों के उत्पादों के ऐसे हथकरखा वस्त्र और परम्परागत लोक हस्तशिल्प वस्तुओं में उत्पाद (भारतीय मदे) मारिक प्रतिबन्ध के अधीन नहीं है । ईईसी वर्ग न० 7, 8, 26 और 27 के अधीन आने वाली हथकरखा पोशाकों को छोड़कर कुटीर उद्योग के हथकरखा वस्त्रों और ऐसे ही हथकरखा वस्तुओं के बने हुए हस्त निर्मित कुटीर उद्योग उत्पाद के मामले में कम्प्लीनेशन प्रपत्र के भाग-2 में वस्त्र समिति का एक "निरीक्षण पृष्ठांकन" अर्पित होगा । परम्परागत लोक हस्त शिल्प वस्त्र उत्पादों (भारतीय मदे) के मामले में, वस्त्र समिति या भारतीय या अखिल भारतीय हस्त शिल्प बोर्ड का प्रमाण पत्र अर्पित होगा ।"

(2) खुले सामान्य लाइसेंस में क्रम सं० 56 के मामले आने वाले कालम-4 में वर्तमान शर्त (3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा --

"हथकरखा वस्त्र और हस्त निर्मित वस्तुएं और "भारतीय मदे" मारिक प्रतिबन्ध के अधीन नहीं हैं । हथकरखा वस्त्र और हस्त निर्मित हथकरखा से बनी वस्तुओं के मामले में कम्प्लीनेशन प्रपत्र के भाग-2 में वस्त्र समिति का "निरीक्षण पृष्ठांकन" अर्पित होगा । यू एस वर्ग संख्या-336, 340, 341, 347 और 349 के अधीन आने वाले हथकरखा पोशाकों के मामले में वस्त्र समिति द्वारा विशिष्ट पृष्ठांकन कम्प्लीनेशन प्रपत्र में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का कोटा पृष्ठांकन भी होना चाहिए । 'भारतीय मदे' के अन्तर्गत आने वाले वस्त्र उत्पादों के मामले में वस्त्र समितिया अखिल भारतीय हस्त शिल्प बोर्ड का एक प्रमाण-पत्र अर्पित होगा ।"

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

[मिसिल संख्या-2/54/80-ई-1 से जारी]

आर अरुणाचलम्, नियंत्रक, आयात-निर्यात

कुमुद नियंत्रक, आयात-निर्यात

## MINISTRY OF COMMERCE

### ORDER

New Delhi, the 16th December, 1981

### EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 900(E) No. E(C)O. 1977/AM(226).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947),

the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) thirty-seventh Amendment Order, 1981

2. In the Exports (Control) Order, 1977—

(i) In OGL 3, the existing condition No. (iii) in Col. 4, appearing against S. No. 55, shall be substituted by the following :—

“Handloom fabrics of the Cottage Industry, handloom cottage industry products made of such handloom fabrics and traditional folklore handicraft textile products (India items) are not subject to quantitative restraints. An “Inspection Endorsement” by the Textiles Committee in Part-2 of the Combination Form will be required in the case of handloom fabrics of the cottage industry, handmade cottage industry products made of such handloom fabrics except handloom garments falling under EEC category Nos. 7, 8, 26 and 27. In the case of traditional folklore handicraft textile products (India items), a certificate by the Textiles Committee or the All India Handicrafts Board will be required.”

(ii) In OGL 3, the existing condition No. (iii) in Col. 4, appearing against S. No. 56, shall be substituted by the following :—

“Handloom fabrics, handmade handloom made up articles and ‘India items’ are not subject to quantitative restraints. An “Inspection Endorsement” by the Textiles Committee in Part-2 of the Combination Form will be required in the case of handloom fabrics and handmade handloom made-up articles. In the case of handloom garments falling under U. S. categories Nos. 336, 340, 341 347 and 348, such Combination Form duly endorsed by the Textiles Committee should also contain the quota endorsement by the Apparels Export Promotion Council. In the case of textile products, falling under ‘India Items’, a certificate by the Textiles Committee or the All India Handicrafts Board will be required.”

[Issued from file No. 2/54/80-EI]

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of  
Imports and Exports

R. ARUNACHALAM, Controller of Imports and Exports  
for Chief Controller of Imports & Exports

